

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

(Formerly known as Rita Holdings Limited)

Regd. Off. : 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085
E-mail : ritaholdingsltd@gmail.com, Website : www.ritaholdings.in, Tel. : 011 - 27860681
CIN : L67120DL1981PLC011741

June 23, 2020

To
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
(Formerly Known as MCX Stock Exchange Limited)
4th Floor, Vibgyor Towers,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai – 400 098

Dear Sir,


Sub.: Newspaper advertisement of notice of 01/2020-2021 board meeting scheduled to be held on Friday, 26th day of June, 2020 at 04:00 P.M.

With reference to the Regulation 47 & 29 and other applicable regulations, if any, of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "FINANCIAL EXPRESS" and Hindi newspaper i.e. "JANSATTA" on June 23, 2020.

This is for your information and records.

Thanking You,
Yours truly

For Rita Finance and Leasing Limited
Formerly Known as Rita Holdings Limited


Pawan Kumar Mittal
(Director)
DIN: 00749265



Encl. Copy of Newspaper Advertisement

विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कुमार फूड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक दिनांक 30 जून, 2020 को 3.00 बजे अप. में 1101, पल्ल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतम्पुर, दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के अंकित वित्तीय परिणामों पर अन्य बातों के अलावे विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

पुनः कृपया ध्यान रहे कि सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंस निर्देश) विनियमन, 2015 के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए ड्रेडिंग विण्डो 22 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक बंद रहेगा।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ramasteel.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात् www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, ट्रेडिंग विंडो अमल 1, 2020 से 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कम्पनी के अंकित वित्तीय परिणामों की घोषणा को 48 घंटे की समाप्ति तक बंद कर दी गई।

परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे तथा उसी नगर, शहर से संबंधित विषयों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindian.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22.06.2020

यूपी होटल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
प्रकाश प्रुस्ती (कम्पनी सचिव)

स्थान: दिल्ली
तिथि: 22.6.2020

कुमार फूड इंडस्ट्रीज लि. के लिये
हस्ता./-
भरत लाल गुप्ता
कार्यकारी निदेशक

कृते रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड
हस्ता./-
(कपिल दत्ता)
कम्पनी सचिव

मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय बी-64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्राय नवादा फतेहपुर, पो.ऑ. सिकन्दरपुर, बूढ़ा, निकट आईएमटी भानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)-122004

दूरभाष: 011-49373931, 0124 2290427 फैक्स: 0124 2290676

सीआरएन: L74899DL19922PLC050333

ई-मेल: investor@mindagroup.com वेबसाइट: www.unominda.com

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
Regd. Off.: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085

E mail: ritaholdings@gmail.com,
website: www.ritaholdings.in,
Phone: 011-27860681

CIN: L67120DL1981PLC011741

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Regd. off.: Tinna House, No. 6 Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi - 110030.
Phone: 011-49518530 • Fax: 011-26807073
Email: investor@tinna.in Web: www.tinna.in
CIN L51909DL1987PLC027186

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मामले (लों) पर विचार तथा अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 29 जून, 2020 को आयोजित की जायेगी

- 1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित स्टेण्डअलोन वित्तीय परिणाम
- 2) 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम 3) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टेण्डअलोन एवं समेकित)
- 4) वित्त वर्ष 2019-20 हेतु अन्तिम लाभांश, यदि कोई हो, की संसृति।
- 5) ऐसी राशि हेतु तथा ऐसे नियम एवं शर्तों पर, जैसा निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया हो, के आधार पर प्राइवेट प्लेसमेंट पर गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा वित्त की उगही।
- 6) वित्थिक, विनियामक एवं अन्य प्राधिकरणों, जैसा प्रयोजन हो, से अपेक्षित अनुमोदन पर राइट इश्यू ('राइट इश्यू') आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गमन द्वारा वित्त की उगही।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.unominda.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता./-
(तरुण कुमार श्रीवास्तव)
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 22 जून, 2020.

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, June 26, 2020 at 4:00 P.M at the registered office of company, inter-alia, to Consider and approve the audited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2020 and any other business with permission of board, if any.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. (www.ritaholdings.in) and website of the stock Exchange i.e. (www.mseil.in).

For and on behalf of the Board
Rita Finance and Leasing Limited
(Formerly known as Rita Holdings Limited)

Sd/-
Kiran Mittal
Director
Place: New Delhi
Date: 22.06.2020

DIN: 00749457

NOTICE

Intimation of Meeting of the Board of Directors of the Company Pursuant to Regulation 29 (1) & (2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Closure of Trading Window.

Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 29th June, 2020 at the Registered office of the Company at Tinna House, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030. Inter alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended 31st March, 2020.

In accordance with the 'Tinna' Code of Practices & Procedures for fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information in pursuance to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Amendment, Regulations, 2018, the trading window shall remain closed till 1st July, 2020 and shall reopen on 2nd July, 2020.

For Tinna Rubber And Infrastructure Limited
Vaibhav Pandey
Company Secretary
M. No. A-53853

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

सम्पूर्ण भारत में आपका वित्तीय बैंक

प्रधान कार्यालय : भंगलुरु - 575 002
CIN : L85110KA1924PLC001128

आरिस्त वसुली प्रबंधन शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली -110060
फोन: 011-25813466, ई-मेल : delhilar@ktkbank.com, मो: 9319891680

भारत होटल्स लिमिटेड
(सीआरएन: U74899DL1981PLC011274)
पंजीकृत धरो: बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001,
दूरभाष: 91-11-44447777, फैक्स: 91-11-44441234,
ई-मेल: corporate@thelalit.com, वेबसाइट: www.thelalit.com

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत कर्णाटका बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.7.2019 जारी कर, ऋणधारक/ मॉर्टेज/ गारन्टर्स: (1) श्रीमती मनीशा जैन, पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार जैन, (2) श्री देवेन्द्र कुमार जैन, पुत्र श्री दीप चन्द जैन, (3) श्री कालोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली-110052, साथ ही: डी-6, जी/एफ, सीसी कॉलोनी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली- 110007 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि ओवरड्राफ्ट ऋण खाता सं. 5617000100002101 के अंतर्गत रु. 18,40,119.46 (रुपए अठारह लाख चालिस हजार एक सौ उन्नीस तथा पैसे छियासिस मात्र) तथा 01.7.2019 से उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, मॉर्टेज/ गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, मॉर्टेज/ गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 18 जून, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.06.2020 से उस पर आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ ओवरड्राफ्ट ऋण खाता सं. 5617000100002101 के अंतर्गत रु. 20,63,611.46 (रुपए बीस लाख तिरसठ हजार छः सौ ग्यारह तथा पैसे छियासिस मात्र) की राशि के लिए कर्णाटका बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विशेष शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अन्तरण तथा वाससी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार भारत होटल्स लिमिटेड ("कम्पनी") उन सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अन्तर्गत करेगी जिसके परिप्रेक्ष्य में 2012-13 से गत सात लगातार वर्षों से लाभांश अग्रदत्त अथवा अदावाकृत हैं। पुनः सूचना दी जाती है कि कम्पनी ने उन सभी शेयरधारकों को, जिनके शेयर आईईपीएफ में अन्तर्गत किये जाने हैं, पहले ही नियत तिथि से पूर्व लाभांश का दावा करने का परामर्श देते हुए कम्पनी के पास पंजीकृत उनके पते पर विशेष सूचना भेज दी है। उनके अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ में अन्तर्गत करने योग्य संगत शेयरों का विवरण उपर्युक्त सम्पर्क में उपलब्ध करा दिया गया है। कम्पनी ने अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अन्तरण हेतु नियत शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.thelalit.com पर भी अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अन्तर्गत किये जाने योग्य शेयरों के विवरण की पुष्टि के लिए कम्पनी की वेबसाइट का सन्दर्भ लेने का निवेदन किया जाता है।

सम्बद्ध शेयरधारक ध्यान दें कि ऐसे अन्तरण पर वे कथित शेयरों सहित आईईपीएफ प्राधिकरण के लाभांश (शौ) का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं जिसके लिए विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

यदि किसी कारणवश कम्पनी को सम्बद्ध शेयरधारकों द्वारा 24 सितम्बर, 2020 तक या इससे पूर्व कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित वांछनीयताओं के अनुपालन की दृष्टि से शेयरों को नियत तिथि अर्थात् 14 अक्टूबर, 2020 को आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तर्गत कर देगी। अधिक सूचना के लिए सम्बद्ध शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तरण एजेंट तथा/अथवा कम्पनी के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

कैफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
इकाई: भारत होटल्स लिमिटेड
काजी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32
गान्धीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरागमुडा, हैदराबाद-500 032 (भारत)
दूरभाष: 040-6716 2222/67161517
ई-मेल आईडी: cinward.ris@kfintech.com/
suresh.d@kfintech.com

कम्पनी सचिव
भारत होटल्स लिमिटेड
बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली-110001 (भारत)
दूरभाष : 91-11-4444 7886/4444 7868
ई-मेल आईडी: bhlshare@thelalit.com

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती मनीशा जैन के स्वामित्व में चन्द्रावल रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली- 110007 में स्थित भू तल तथा दो तलों (जीएफ+2) में शामिल भवन में सम्पूर्ण भू तल तथा सम्पूर्ण प्रथम तल जिसमें प्रत्येक का कवर्ड एरिया 230 वर्ग फीट है, में स्थित व्यावसायिक दुकान की सम्पत्ति सं. 6926/ए-13 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: रोड (चन्द्रावल रोड)

स्थान: दिल्ली
तिथि: 18.06.2020

कर्णाटका बैंक लि. के लिये
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

कृते भारत होटल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(हिमांशु पाण्डे)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.06.2020

कम्पनी सचिव तथा विधि प्रमुख एवं अनुपालन अधिकारी
एम. सं. एसएस-13537